

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 अक्टूबर 2022

प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस राज्य ने 'दुर्गावती टाइगर रिजर्व' नामक एक नए बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है?

- A) राजस्थान
- B) महाराष्ट्र
- C) मध्य प्रदेश
- D) गुजरात

सही उत्तर: C

मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व (PTR) के बाघों के लिए एक नए अभयारण्य 'दुर्गावती टाइगर रिजर्व' को मंजूरी दी है।

प्रश्न -2

उपन्यास "द सेवन मून्स ऑफ माली अलमेडा" के लिए निम्नलिखित में से किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता?

- A) डेमन गलगुट
- B) डगलस स्टुअर्ट
- C) मार्गरेट एटवुड
- D) शेहान करुणातिलका

सही उत्तर: D

शेहान करुणातिलका की किताब 'सेवन मून्स ऑफ माली अलमेडा' ने बुकर पुरस्कार 2022 जीता।

प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किस देश के उल्फ क्रिस्टर्सन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था?

- A) स्वीडन
- B) पोलैंड
- C) नॉर्वे
- D) फिनलैंड

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 अक्टूबर 2022

सही उत्तर: A

स्वीडन की संसद ने हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है।

प्रश्न -4

ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?

- A) सुमेर ढेरी
- B) श्रीधर वेंकटेश
- C) जुबी चांडी
- D) भूषण अक्षीकर

सही उत्तर: D

ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GSK) फार्मास्यूटिकल्स के निदेशक मंडल ने भूषण अक्षीकर को चार साल की अवधि के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किसे यूबी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) गौरव कुमार
- B) हेमंत अग्रवाल
- C) अतनु चक्रवर्ती
- D) पी.डी. सिंह

सही उत्तर: C

यूबी ने सेवानिवृत्त सिविल सेवक और HDFC बैंक के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती को अपने बोर्ड के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 अक्टूबर 2022

प्रश्न -6

किस देश ने महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर बीटल की एक नई प्रजाति का नाम 'डुवेलियस डोकोविसी' रखा है?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) ईरान
- C) सर्बिया
- D) स्पेन

सही उत्तर: C

सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर 'डुवेलियस डोकोविसी' रखा है।

प्रश्न -7

'ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी' नामक एक नई पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी?

- A) शशांक प्रिया
- B) साहिल सेठ
- C) पीयूष कुमार गुप्ता
- D) गौरव शुक्ला

सही उत्तर: B

IRS के संयुक्त आयुक्त GST, कस्टम और नारकोटिक्स अधिकारी साहिल सेठ ने 'ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी' नामक एक नई पुस्तक लिखी है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 अक्टूबर 2022

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 5वीं सभा आयोजित की गई थी?

- A) फ्रांस
- B) भारत
- C) जापान
- D) नीदरलैंड्स

सही उत्तर: B

भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई।

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किस भाषा में भारत सरकार ने MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं?

- A) भोजपुरी
- B) हिंदी
- C) पंजाबी
- D) तमिल

सही उत्तर: B

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर, 2022 को MBBS छात्रों के लिए तीन विषयों की हिंदी में पाठ्यपुस्तकों का विमोचन किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 अक्टूबर 2022

प्रश्न -10

निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत की पहली एल्युमीनियम रैक वाली मालगाड़ी विकसित किया गया था?

- A) हिंडाल्को
- B) जिंदल एल्युमिनियम
- C) NALCO
- D) वेदांत लिमिटेड

सही उत्तर: A

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिंडाल्को द्वारा विकसित भारत के पहले ऑल-एल्युमिनियम मालगाड़ी रैक का शुभारंभ किया।